



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1931 (श0)
(सं0 पटना 617) पटना, शुक्रवार, 11 दिसम्बर 2009

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

8 दिसम्बर 2009

सं0 जे०/डी०ई०मिस० 1003/2000-10013—स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं पी०आई०टी०एन०डी०पी०एस० अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के आलोक में अफीम की अवैध रूप से हो रही खेती को विनष्ट करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर एक-एक कम्पोजिट टीम का गठन किया गया है जो निम्न प्रकार है—

राज्य स्तरीय कम्पोजिट टीम

- | | |
|--|--------------|
| 1. पुलिस अपर महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना | — अध्यक्ष |
| 2. उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के मनोनित प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 4. संयुक्त निदेशक, आई०बी० (खुफिया विभाग), पटना के मनोनित प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 5. विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 6. नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार के मनोनित प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 7. पुलिस अधीक्षक, (आर्थिक अपराध कोषांग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य सचिव |

जिला स्तरीय कम्पोजिट टीम

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. पुलिस अधीक्षक | — अध्यक्ष |
| 2. वन प्रमंडल पदाधिकारी | — सदस्य |

3. विशेष शाखा के पदाधिकारी

— सदस्य

4. उत्पाद अधीक्षक

— सदस्य सचिव

उपरोक्त गठित दोनों स्तरों की कम्पोजिट टीम अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए अफीम की अवैध रूप से की जा रही खेती को विनष्ट करने के कार्य के साथ-साथ अन्य अवैध मादक पदार्थों को विनष्ट करने के संबंध में भी समुचित कार्रवाई हेतु अधिकृत की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन सिन्हा,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 617-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>